

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257949
SG-DL-E-16102024-257949असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]	दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 14, 2024/आश्विन 22, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 215
No. 253]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ASHVINA 22, 1946	[N. C. T. D. No. 215

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

फा. सं. डीटीओ/वीआईयू/टीपीटी/2024/380.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 45घ की उपधारा (क) सहित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा (2) की उप-धारा (41) के साथ पठित केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 174 के उप-नियम (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा स्वचालित परीक्षण केंद्र के पंजीकरण के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अध्याय XI के अंतर्गत प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने, पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने तथा नवीनीकरण करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन आयुक्त को नामित एवं सशक्त बनाते हैं।

यह अधिसूचना भासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रशांत गोयल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 27th September, 2024

F. No. DTO/VIU/Tpt./2024/380.—In exercise of power conferred by sub-rule (iv) of Rule 174 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 read sub-section (41) of section (2) of the Motor Vehicle Act, 1988, with sub-section (a) of section 45D of the Government of National Capital Territory of Delhi, Act 1991, the Lieutenant Governor of Delhi hereby nominates & empowers Commissioner of Transport, Government of National Capital Territory of Delhi, to issue Preliminary registration Certificates, issue and renew Registration Certificates under Chapter-XI of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 for the registration of automated Testing Station.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in The Name of Lt. Governor

National Capital Territory of Delhi

PRASHANT GOYAL, Pr. Secretary-cum-Commissioner (Transport)